

**Model Paper**  
**Class - 10TH**  
**Element of Book Keeping and Accountancy**

**Time allowed - 3 hours**

**Maximum Marks - 50**

**Special Instructions**

- 1. Question paper is divided into two sections Section (A) and Section (B)**
- 2. In Section (A) choice is given in every Question.**
- 3. All questions are compulsory 10 marks are allotted for every question in section(A)**
- 4. In section (B) Multiple choice Questions are given. Every Question carries 1 mark**
- 5. Marks allotted to each questions are indicated against it.**
- 6. Candidates are required to give their answers in their own words as for as practice.**

Section- A

Question 1:- What is Bank Reconciliation statement? What are the causes of Difference between the Balance of cash book and pass book? What is the need of Bank reconciliation statement?

अथवा /or

Prepare cash book from the following transactions of April, 2019

	Amount (Rs.)
1 Cash balance रोकड शेष	10000
10 Goods purchased for cash नकद क्रय	2000
14 Cash Received from Anil and discount allowed अनिल से नकद लिया छूट दी	200
18 Paid salary वेतन दिया	1000
28 Paid to Ram राम के भुगतान किया	500
29 Cash sales नकद विक्रय	1000
30 Received commission कमीशन प्राप्त की	200

Question 2:- Write short notes on the following adjustments

- (1) Closing stock अन्तिम रहितया
- (2) Outstanding expenses अदत्त व्यय
- (3) Prepaid Expenses पूर्वदत्त व्यय
- (4) Depreciation ह्रास

अथवा /or

Prepare trading account for the year ended 31st March, 2016

31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष का व्यापारिक खाता बनाइए।

(i) Opening Stock प्रारम्भिक रहितया	10500
Purchases कय	12000
Sales विक्रय	16000
Sales return विक्रय वापसी	500
Purchase return कय वापसी	400
Carriage inward दुलाई	200
Wages मजदूरी	500
Import charges आयात शुल्क	400
Closing stock अन्तिम रहितया	5000

(ii) Prepare Profit and Loss Account:

निम्नलिखित से लाभ हानि खाता बनाइए।

Gross Profit सकल लाभ	75000
Rent Received किराया प्राप्ति	2600
Salary Paid वेतन भुगतान	3000
Export Duty निर्यात शुल्क	2500
Commission Received कमीशन प्राप्ति	2400
Depreciation मूल्य ह्रास	1000
Discount allowed छूट भुगतान	250
Stationary expenses स्टेशनरी खर्चा	500
Advertisement expenses विज्ञापन व्यय	500

Question. 3 What do you mean by bills of Exchange? How many parties are there in bills of Exchange? What are the characteristics of bills of exchange?

विनियम विपित्र से क्या अभिप्राय है। विनियम विपित्र के कितने पक्षकार होते हैं। विनियम विपित्र की क्या विशेषताएं हैं।

अथवा /or

On 1st Jan, 2012 "X" sells goods to "y" for Rs. 5000 and draws a bills of exchange on him bill due after 3 months. The bill was accepted by "y" and the bill was met by "y" on maturity. Pass Journal Entries in the books of "X" and "y".

1st Jan, 2012 को "X" ने "Y" को वस्तुएं बेची रु 5000 मूल्य की 3 महीने का बिल लिखा। "Y" ने बिल स्वीकार किया और नियत तारीख पर बिल को भुना लिया गया। "X" और "Y" के खातों में प्रविष्टियां कीजिए।

**Section-B**  
**भाग (ख)**

Question. 4 Choose the correct options

सही विकल्प चुनिए

- (1) Cash Book is used to  
(a) Compute the Profit and Loss A/C  
(b) Record receipt and Payment  
(c) Record only Receipt of Cash  
(d) Record only Payment of Cash.  
रोकड़ बही का प्रयोग  
(a) लाभ हानि ज्ञात करने के लिए  
(b) आय और व्यय  
(c) प्राप्ति के लिए  
(d) व्यय के लिए
- (2) When the entry is made on the both side of Cash book It is called as?  
(a) General entry  
(b) Double entry  
(c) Compound entry  
(d) Contra entry  
जब प्रविष्टि रोकड़ बही के दोनो तरफ की जाती है तो इसे बोला जाता है।  
(a) साधारण प्रविष्टि  
(b) दोहरी प्रविष्टि  
(c) कंपाउंड प्रविष्टि  
(d) विपरीत प्रविष्टि
- (3) How many kinds of Cash book.  
(a) 2  
(b) 3  
(c) 4  
(d) None of the above  
रोकड़ वही के प्रकार  
(a) 2  
(b) 3  
(c) 4  
(d) इनमें से कोई नहीं
- (4) When money is withdrawn from Bank, It is \_\_\_\_\_ in the pass book  
(a) Debited  
(b) Credited  
(c) Not shown  
(d) Added  
जब बैंक से पैसा निकाला जाता है तो उसे पास बही में दिखाया  
(a) डेबिट  
(b) क्रेडिट  
(c) नहीं दिखाया जाता  
(d) जमा
- (5) Trading Account shows:-  
(a) Net profit  
(b) Gross profit  
(c) Both a & b  
(d) None of the above  
व्यापारिक खाते में दिखाया जाता है।

- (a) शुद्ध लाभ  
(b) सकल लाभ  
(c) दोनों a & b  
(d) इनमें से कोई नहीं
- (6) In Trading Account following expenses shown  
(a) Direct expenses  
(b) Indirect expenses  
(c) Both a & B  
(d) None of the above  
व्यापारिक खाते में निम्न व्यय करवाये जाते हैं  
(a) प्रत्यक्ष खर्च  
(b) अप्रत्यक्ष खर्च  
(c) दोनों a और b  
(d) इनमें से कोई भी नहीं
- (7) Debit side of Profit and Loss Account record  
(a) Expenses  
(b) Income  
(c) Assets  
(d) All of the above  
लाभ हानि खाते के डेबिट तरफ लिखा जाता है  
(a) व्यय  
(b) आय  
(c) सम्पत्तियाँ  
(d) यह सभी
- (8) In Bills of Exchange number of parties are:-  
(a) 2  
(b) 3  
(c) 4  
(d) 5  
विनियम पत्र में निम्न पक्ष होते हैं।  
(a) 2  
(b) 3  
(c) 4  
(d) 5
- (9) In Bills of Exchange the days of grace allowed are  
(a) 3  
(b) 4  
(c) 2  
(d) 5  
विनियम पत्र में अग्रेसित दिन होते हैं।  
(a) 3  
(b) 4  
(c) 2  
(d) 5
- (10) In Promissory Note Number of parties are

- (a) 4
  - (b) 3
  - (c) 2
  - (d) None of the above
- प्रतिज्ञा पत्र में निम्न पक्षकार होते हैं।

- (a) 4
- (b) 3
- (c) 2
- (d) इनमें से कोई भी नहीं।

(11) Bills of Exchange is drawn for

- (a) Certain amount
  - (b) Not certain amount
  - (c) Both
  - (d) None of the above
- विनियम पत्र लिखा जाता है।

- (a) निश्चित राशि
- (b) अनिश्चित राशि
- (c) दोनों
- (d) कोई भी नहीं

(12) Rent Received is shown in

- (a) Trading Account
  - (b) Profit
  - (c) Balance sheet
  - (d) None of these
- किराया प्राप्ति दिखाया जाता है।

- (a) दायित्व पक्ष स्थिति विवरण में
- (b) व्यापारिक खाते में
- (c) लाभ हानि खाते में
- (d) इनमें से कोई भी नहीं

(13) Building owned by business is

- (a) Liability
  - (b) Assets
  - (c) Expenses
  - (d) None of the above
- भवन व्यापार के लिए प्रयोग किया गया।

- (a) दायित्व
- (b) सम्पत्ति
- (c) व्यय
- (d) कोई भी नहीं

(14) Factory expenses are shown in

- (a) Profit and Loss Account
  - (b) Balance sheet
  - (c) Trading Account
  - (d) None of the above.
- फैक्ट्ररी व्यय दिखाए जाते हैं।

- (a) लाभ हानि खाते में  
(b) स्थिति विवरण में  
(c) व्यापारिक खाते में  
(d) कोई भी नहीं
- (15) Two sides of the Balance sheet are  
(a) Expenditure and Income  
(b) Liabilities and Assets  
(c) Receipts and payments  
(d) None of the above  
स्थिति विवरण के दोनों तरफ  
(a) व्यय और आय  
(b) दायित्व और सम्पत्ति पक्ष  
(c) प्राप्ति और भुगतान  
(d) कोई भी नहीं
- (16) "Salary and wages" are shown in  
(a) Trading Account  
(b) Profit and Loss Account  
(c) Balance sheet  
(d) Both a & B  
'वेतन और मजदूरी' दिखाए जाते हैं  
(a) व्यापारिक खाता  
(b) लाभ हानि खाता  
(c) स्थिति विवरण  
(d) दोनों a और b
- (17) Petty cash book is maintained to record  
(a) For small expenses/income  
(b) For Big expenses/Income  
(c) Both a & b  
(d) None of the above  
लघु रोकड़ बहि बनाई जाती है।  
(a) छोटे खर्चों के लिए  
(b) बड़े खर्चों के लिए  
(c) दोनों a और b  
(d) इनमें से कोई भी नहीं
- (18) Bank Reconciliation statement is prepared by  
(a) Banker  
(b) Government  
(c) Customer/Account holder  
(d) Both a & b  
बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है।  
(a) बैंकर के द्वारा  
(b) सरकार  
(c) खाता धारक/ग्राहक  
(d) दोनों a और b

(19) Which one of the following is Asset

- (a) Outstanding Expenses
- (b) Rent paid
- (c) Cash
- (d) None of the above

इनमें से सम्पत्ति है।

- (a) अद्रत व्यय
- (b) किराया भुगतान किया
- (c) रोकड़
- (d) कोई भी नहीं

(20) Under double entry system of Book Keeping every business transaction has

- (a) Single effect
- (b) Double effect
- (c) Multiple effect
- (d) None of the above

दोहरी पद्धति के द्वारा बुक कीपिंग में प्रत्येक लेन देन के प्रभाव होते हैं।

- (a) एकल प्रभाव
- (b) दोहरा प्रभाव
- (c) बहु प्रभाव
- (d) कोई भी नहीं